

बरेली में घर में नकली मोबिल आयल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़



Publish Date: Sat, 17 Jul 2021 05:24 AM (IST) Author: Jagran

किला के कटघर मुहल्ले में पिता-पुत्र द्वारा नकली मोबिल आयल बनाए जाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। किला पुलिस ने दबिश दी तो नकली मोबिल तैयार किए जाने का राजफाश हुआ। फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपित पिता हसीन अख्तर व पुत्र वसीम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 550 लीटर नकली मोबिल आयल के साथ मोबिल बनाने के अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। फैक्ट्री में मोबिल आयल के नामी कंपनियों के लेबल भी मिले हैं। आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

बरेली, जेएनएन : किला के कटघर मुहल्ले में पिता-पुत्र द्वारा नकली मोबिल आयल बनाए जाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। किला पुलिस ने दबिश दी तो नकली मोबिल तैयार किए जाने का राजफाश हुआ। फैक्ट्री संचालित करने वाले आरोपित पिता हसीन अख्तर व पुत्र वसीम अख्तर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 550 लीटर नकली मोबिल आयल के साथ मोबिल बनाने के अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। फैक्ट्री में मोबिल आयल के नामी कंपनियों के लेबल भी मिले हैं। आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है।

बीते माह किला पुलिस ने नकली पेंट व पुट्टी बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी थी। फैक्ट्री को संचालित करने वाले गिरोह के सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया था। एक बार फिर से नकली पेंट बनाने की सूचना पर शुक्रवार को किला इंस्पेक्टर राजकुमार तिवारी ने फोर्स के साथ कटघर में हरी मीनार मस्जिद के पास हसीन अख्तर के घर में संचालित फैक्ट्री में दबिश दी। इससे आरोपित पिता-पुत्रों ने भागने की कोशिश की लेकिन, वह सफल न हो सके। दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस ने फैक्ट्री खंगाली तो माजरा ठीक उलट निकला। नकली पेंट व पुट्टी की जगह अवैध मोबिल बनाए जाने का राजफाश हुआ। फैक्ट्री से 550 लीटर नकली मोबिल आयल, 200 गत्ता, 20 डिब्बे हरा रंग व मोबिल आयल बनाए जाने के उपकरण व अन्य सामान बरामद हुआ। ब्रांडेड कंपनी के लगाते थे स्टीकर, बार कोड भी चिपकाते थे आरोपित

फैक्ट्री से पुलिस को मोबिल आयल की ब्रांडेड कंपनियों फोर टी मोबिल आयल, कैस्ट्रल एक्टिव, हीरो, रेसप्लस समेत अन्य के स्टीकर व डिब्बे मिले हैं। मोबिल तैयार करने के बाद आरोपित डिब्बों पर ब्रांडेड कंपनियों के स्टीकर चिपकाते व बार कोड भी लगाते। इसके बाद तैयार माल को बाजार में खपाया जाता। पुलिस ने फैक्ट्री से तीन हजार स्टीकर सहित बारकोड बरामद किए। केमिकल का इस्तेमाल कर 70 रुपये में तैयार करते थे एक लीटर मोबिल आयल

आरोपित केमिकल का इस्तेमाल कर 70 रुपये में एक लीटर मोबिल आयल तैयार करते थे। इसके बाद बाजार में बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को यह मोबिल आरोपित 150 रुपये प्रति लीटर बेचते थे। यही मोबिल आगे चलकर बाजार रेट में असल मोबिल के भाव बिकने लगता। अब आरोपितों से मोबिल कौन-कौन खरीद रहा था। पुलिस इसकी तलाश में जुट गई है। कोरोना काल में खड़ी कर दी फैक्ट्री

2020 में जब लाकडाउन लगा तो पिता पुत्र ने मिलकर नकली मोबिल तैयार किए जाने की पटकथा बुनी। इसके बाद सबसे पहले उपकरण खरीदे। फिर काम शुरू कर दिया। दो साल से चल रही फैक्ट्री पर आस-पास के लोगों को संदेह तब हुआ जब मोबिल लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटरों की लाइन लगने लगी। पूछताछ में सामने आया है फैक्ट्री संचालन के पीछे अन्य लोग भी शामिल हैं। दो साल में करोड़ों का बाजार में खपाया नकली मोबिल आयल

आरोपितों ने दो साल में करोड़ों का नकली मोबिल आयल बाजार में खपा दिया। हैरत की बात यह है कि पूछताछ में आरोपित कंपनी की ओर से ही काम मिलने का हवाला देने लगे। फिर ब्रांडेड कंपनियों के स्टीकर व बार कोड के सवाल पर आरोपित चुप रहे। इसके बाद केमिकल का इस्तेमाल कर नकली मोबिल आयल तैयार किए जाने की बात कबूली। वर्जन

नकली मोबिल आयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।

- रोहित सिंह सजवाण, एसएसपी

Source: <https://www.jagran.com/uttar-pradesh/bareilly-city-fake-mobil-oil-factory-busted-at-home-in-bareilly-21838061.html>